

Talbros Automotive Components Ltd.

www.talbros.com

23rd May, 2024

BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001 **The National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051

Scrip Code - 505160

Company Code – TALBROAUTO

<u>Sub:</u> <u>Submission of Newspaper publication of Extract of Audited Financial Results of</u> the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2024

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing copies of Newspaper Publication of Extract of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and financial year ended 31st March, 2024 as published in Business Standard (Hindi & English) newspaper on May 23, 2024.

You are requested to take the above on your records.

Thanking You.

Yours faithfully For **Talbros Automotive Components Limited**

Seema Narang Company Secretary and Compliance Officer



Encl: As above

COMPANIES 3

From Delhi to Delaware: Woes mount for Byju's

Ex-employees planning to take firm to NCLT next week to demand their dues

PEERZADA ABRAR

Bengaluru, 22 Mav

ast year, Ajay (name changed), an employee at the beleaguered edtech giant Byju's, purchased a house in Mumbai for over ₹1 crore as a gift for his parents. He took a loan of about ₹75 lakh from a bank on EMI (equated monthly installment). However, a few months after the deal, Byju's handed him the pink slip. He had to sell off his property at a lower price last year and relocate to his previous accommodation at a chawl.

"It was a middle-class boy's dream to gift a home to his parents and get them out of the chawl in Mumbai," said Ajay.

He was also forced to go from pillar to post to get the provident fund, gratuity, and the full and final compensation. He still has not been able to get that amount from the company. When I called the human resources department, they abused me," Ajay alleged.

Ajay is among the 2,000 disgruntled former employees of Byju's who have joined hands to fight for their rights. Next week, several among them, who are based in various parts of the country, including in New Delhi, are planning to take their former employer to the National Company Law Tribunal (NCLT) in Bengaluru for the payment of their dues.

"We have already hired a lawyer to fight our case at the NCLT and the total claim

FACING BUMPY ROAD

Riju Ravindran faces penalties for defying a US judge's order to find out where the firm hid \$533 million that lenders said should go to them

- US bankruptcy judge said during a hearing that Riju not only failed to make a serious effort to find out what happened to the money but also deceived the court
- The **missing cash** is part of the dispute between Byju's and an ad hoc group of lenders

amount is over ₹1 crore, which is the threshold required to file the case," said Bharat (name changed), a former teacher at Byju's. Bharat said many of them are afraid to participate in a legal battle with Byju's as they fear it would negatively impact their careers. Byju's is facing multiple challenges, including a cash crunch, delays in financial reporting, and legal disputes with lenders and investors.

Overseas, Riju Ravindran, a director of Byju's parent company, Think & Learn Pvt, faces financial penalties for defying a US judge's order to find out where the firm hid \$533 million that disgruntled lenders said should be rightfully theirs.

Riju, the brother of company founder Byju Raveendran, not only failed to make a serious effort to find out what happened to the money but deceived the court, US bankruptcy judge John Dorsey



said, during a hearing on Tuesday in Wilmington, Delaware.

The missing cash is part of the dispute between Byju's and an ad hoc group of lenders (the Ad Hoc Group), which lent \$1.2 billion as term loans (Term Loans) to the company.

"Today's ruling validates what we have known all along: Riju Ravindran, his brother and co-founder, Byju Raveendran, and their conspirators fraudulently transferred \$533 million in loan proceeds for no legitimate purpose other than to hide the money from the lenders to whom it is rightfully owed. With William Morton and now Riju (Ravindran) found in contempt, the walls are closing in around Byju and his house of cards. We will continue to take all necessary legal actions to recover the stolen funds," said the lender group on Wednesday.

SpiceJet to seek ₹450 cr refund from former promoter Maran

Maran dismisses airline's claim, says Delhi HC made no comments on refund

DEEPAK PATEL New Delhi, 22 May

SpiceJet on Wednesday said it will seek a refund of ₹450 crore from its former promoter cent on Wednes-Kalanithi Maran after the Delhi High Court last week ruled in the airline's favour in a protracted share transfer dispute.

Dismissing SpiceJet's claim, Maran's firm KAL Airways had paid ₹730 stated that the Delhi HC order crore to Maran did not make any observations and Airways — ₹580 regarding the refund, and therefore, any claim seeking crore in principal the return of money "does not arise at all".

"Any suggestion that the airline is entitled to a refund is grossly misconceived and intended to cause mischief and Delhi High Court overturned

to mislead the public, particu- that ruling on May 17, paving opined that the award is wrong larly investors," KAL Airways the way for SpiceJet to seek a said in a statement on refund of ₹450 crore, it claimed. Wednesday evening. SpiceJet's KAL

KAL

Wednesday evening, responded to SpiceJet's claim, stating The carrier said it

that the division Bench's order Airways according to an arbitration 'specifically focused" reviewing the tribunal's order in 2018 that was upheld correctness of the by a single-judge judge's deci-Bench in 2023

Airways,

on

on

single

🔀 MAX

(₹ In Lakhs)

sion, and has and ₹150 crore as interest — not rendered any decision on according to an arbitration tri- the 2018 arbitral award. This means that there is no stay on of date, it claimed. "The division Bench has not all," it mentioned.

per se. The division Bench has merely required further elaboration on certain specific issues, suggesting that the single judge consider these observations in reassessing the award's validity," it mentioned.

The Bench has "neither made any observation nor given any finding" regarding the refund already paid to KAL Airways and Maran by SpiceJet, it stated.

"Therefore, any claim seeking the return of the money already paid to KAL Airways and Mr Maran, under the directions of the Hon'ble Supreme Court as well as the Hon'ble High Court, does not arise at



	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Revenue from Operations	85,281.97	79,204.99	3,28,409.68	2,99,910.02	86,962.84	79,204.99	3,30,115.31	2,99,910.02
Profit from ordinary activities before tax	11,419.56	8,401.99	41,345.51	31,270.40	11,500.64	8,400.41	41,229.66	31,270.80
Net Profit from ordinary activities after tax	8,543.42	6,217.29	30,809.85	23,229.99	8,694.54	6,215.71	30,801.70	23,230.39
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit and other Comprehensive Income for the period)	8,636.13	6,298.65	30,837.09	25,986.86	8,787.06	6,297.71	30,828.75	25,987.90
Equity share capital (Face value ₹2 per share)	983.37	980.34	983.37	980.34	983.37	980.34	983.37	980.34
Reserves (excluding Revaluation reserves)			1,28,493.81 (As at 31/03/2024)	1,16,863.86 (As at 31/03/2023)			1,28,477.26 (As at 31/03/2024)	1,16,862.94 (As at 31/03/2023)
Earnings Per Share (Face value ₹2 per share) a) Basic- ₹ b) Diluted- ₹	*17.39 *17.09	*12.68 *12.66	62.79 62.19	47.30 47.16	*17.69 *17.39	*12.67 *12.65	62.76 62.17	47.30 47.16
*Not Appualized								

Place: Mumbai

Date: May 21, 2024

. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Audited Financial Results is available on the stock exchange websites, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.india.gulfoilltd.com

2. The Board of Directors have recommended a final Dividend of Rs. 20/- per equity share (i.e. 1000% on face value of Rs. 2 per equity share) for the financial year ended 31 March 2024 subject to approval of members at Annual General Meeting. During February 2024, the Board had declared and paid interim dividend for the financial year 2023-24 of Rs. 16/- per equity share (i.e. 800 % on face value of Rs. 2 per equity share). With this, the total dividend for the year stands at Rs. 36/- per equity share (i.e. 1800 % on face value of Rs. 2 per equity share).

3. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on August 27, 2023, approved the acquisition of 51% controlling stake in Tirex Transmission Private Limited (Tirex), a manufacturer of DC fast chargers for electric vehicles, for which the Company entered into share purchase cum share subscription agreement dated August 31, 2023. The consideration for acquisition of 51% stake in Tirex is Rs.10,250.88 Lakhs. As per the agreement, the Company completed the above acquisition on October 30, 2023, upon fulfillment of conditions precedent to the acquisition. Accordingly, Tirex has become a subsidiary of the Company effective from October 30, 2023.

For and on behalf of Board of Directors of **GULF OIL LUBRICANTS INDIA LIMITED**

Ravi Chawla Managing Director & CEO DIN: 02808474

bunal's order in 2018 that was upheld by a single-judge bench the execution of the award as in 2023. A division bench of the

talbr

TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED

CIN: L29199HR1956PLC033107 Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana) Tel No.: 0129-2251482, Website: www.talbros.com, Email: seema_narang@talbros.com

CIN: L72200MH2001PLC322854 REGISTERED OFFICE : 401, 4th Floor, Man Excellenza, S. V. Road Vile Parle (West), Mumbai 400056, Maharashtra. Tel:- +91- 22 2610 0461/62 E-mail:- investors@maxhealthcare.com Website:- www.maxhealthcare.in

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED

share price went up by 1.67 per day to ₹62.02. In a statehad paid ₹730 crore ment on Wedneto Maran and KAL sday morning, SpiceJet said it

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

							(₹ In Lakhs)					
			CONSOLIDATED									
	S.	Particulars		Quarter ende	d	Year ended						
	No.	Particulars	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Mar 31, 2023	Mar 31, 2024	Mar 31, 2023					
No. 1 Rever 2 Profit 3 Profit 4 Total - perior 5 Paid- (Face 6 Other 7 Earnin Basic		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited						
	1	Revenue from operations	1,42,290	1,33,497	1,21,451	5,40,602	4,56,260					
	2	Profit before tax for the period/year	33,573	35,968	30,068	1,36,532	1,06,372					
	3	Profit after tax for the period/year	25,154	28,934	25,092	1,05,764	1,10,351					
	4	Total comprehensive income for the period/year, net of tax	25,069	28,868	25,003	1,05,119	1,10,303					
	5	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 per share)	97,191	97,183	97,092	97,191	97,092					
	6	Other equity				7,43,623	6,43,867					
	7	Earning per share (of ₹ 10 each)	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Annualised	Annualised					
		Basic- In Rupees	2.59	2.98	2.58	10.89	11.38					
		Diluted-In Rupees	2.58	2.97	2.58	10.84	11.36					

I. The key Standalone Financial information of the Company is as under:-

		STANDALONE									
S. No.	S. Particulars		Quarter ende	Year ended							
		Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Mar 31, 2023	Mar 31, 2024	Mar 31, 2023					
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited					
a	a Revenue from operations	61,011	59,075	50,732	2,34,136	1,90,466					
t	b Profit before tax for the period/year	29,062	20,333	15,096	86,496	56,314					
0	c Profit after tax for the period/year	24,177	15,812	12,637	68,726	69,431					
C	d Total comprehensive income for the period/year, net of tax	24,182	15,843	12,673	68,523	69,501					

The above is an extract of the detailed format of financial results for quarter and year ended March 31, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results (Consolidated & Standalone) for the guarter and year ended March 31, 2024, are available on the Company's website i.e. www.maxhealthcare.in and also on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

- The above financial results (Standalone & Consolidated) for the quarter and year ended March 31, 2024, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 22, 2024. The Statutory auditors, Deloitte Haskins & Sells have issued an unmodified report on the above results. III.
- During the quarter ended March 31, 2024, the Company acquired 100% stake in Alexis Multi-Speciality Hospital Private Limited ("Alexis") for an aggregate consideration of INR 37, 175 lakhs. Additionally, Crosslay Remedies Limited ("CRL"), a wholly-owned subsidiary of the Company acquired 100% stake in Starlit Medical Centre Private Limited ("Starlit"). Starlit had entered into a Business Transfer Agreement with Sahara India Medical Institute Limited to acquire its Healthcare. IV. Undertaking, including all operations, assets, and liabilities, through a slump sale transaction for a cash consideration of TIRR 19,778 lakhs. On fulfilment of conditions precedent, CRL completed the acquisition of healthcare undertaking on March 7, 2024. The acquisitions were accounted for as a business combination using the acquisition method of accounting in accordance with Ind AS 103 'Business Combinations'. Consequently, goodwill aggregating to INR 22,103 lakhs and INR 27,678 lakhs have been recognised for Alexis and Starlit respectively, in Consolidated financials of the Company. The financial results of Alexis and Starlit have been consolidated with the Group from the date of acquisition.
- The Board of Directors at their meeting held on May 22, 2024 recommended a dividend of INR 1.50 per share (15% of face V. value) out of the profits of the financial year 2023-24, subject to approval of the shareholders

	Max Healthcare Institute Limited
	Sd/-
	Abhay Soi
Place : Mumbai	Chairman & Managing Director
Date : May 22, 2024	DIN: 00203597

Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2024



* Including exceptional item	Including exceptional item (Rs. in lac											
	STANDALONE											
	C	Quarter ende	be	Year	Year ended		Quarter ended			Year ended		
Particulars	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23		
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited		
Total Income from Operations	20,745.23	20,147.61	17,686.94	79,086.35	65,338.27	20745.23	20147.61	17,686.94	79,204.15	65,338.27		
Profit/(Loss) before exceptional Items and tax	2,866.59	2,819.69	2,142.03	10,424.37	7,028.77	2,463.11	2,348.46	1,783.01	8,925.02	5,841.40		
Exceptional items	4,245.54	-	-	4,245.54	-	7,653.48	-	-	7,653.48	-		
Profit/(Loss) before tax	7,112.13	2,819.69	2,142.03	14,669.91	7,028.77	10,116.59	2,348.46	1,783.01	16,578.50	5,841.40		
Net Profit/(Loss) after tax	4,978.51	2,274.72	1,688.49	10,997.63	5,557.70	7,982.97	1,803.49	1,329.47	12,906.22	4,370.33		
Total Comprehensive income/(loss) for the period (Comprising profit after tax and other comprehensive income after tax)	4,984.98	3,852.47	2,718.05	17,336.56	6,872.32	7,989.99	3,382.34	2,363.70	19,249.02	5,689.38		
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56		
Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for the period - not annualised) Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	8.07 8.07	3.69 3.69	2.74 2.74		9.00 9.00		2.92 2.92	2.15 2.15	20.91 20.91	7.08 7.08		

Notes

The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosu Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and yearly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.talbros.com).

These standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended on 31 March 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Talbros Automotive Components Limited ("the Company") at their respective meetings held on 22 May 2024. The Statutory Auditors have audited the annual financial results. The figures for the quarter ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review. Mr. Anuj Talwar, JMD is duly authorised by Board to sign the financial results for submission to stock exchanges.

The Company has completed the split/sub-division of its existing Equity Shares from Rs. 10/- (Rupees Ten only) each share to Rs. 2/- (Rupees Two only) each share as per record date of October 27, 2023, as approved by shareholders at AGM of the Company held on 25th September 2023. Hence, the earnings per share (EPS) have been adjusted for the current as well as comparative periods for the presentation purposes in accordance with IND AS 33.

Louring the quarter ended March 31, 2024, the Company has completed the process of divesting and selling its entire 40% stake in Its Joint Venture " Nippon Leakless Talbros Private Limited" (NLTPL) Constituting 48,00,000 fully paid-up equity shares of Rs 10/- each for Rs 81.80 Cr. The sales proceeds was completed on 25th January 2024. The net gain from the transaction has been disclosed as exceptional items in the results. The capital gain tax on sale of investment has been disclosed as part of the tax expense in the results. Following table provides bifurcation of Profit After Tax (PAT) on other than exceptional items and exceptional Items.

											(Rs. in lacs)	
			CC	NSOLIDAT	ED		STANDALONE					
S.		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended		
No.	Particulars	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
Α.	Other than Exceptional Items											
1.	Profit Before Exceptional Item	2,866.59	2,819.69	2,142.03	10,424.37	7,028.77	2,463.11	2,348.46	1,783.01	8,925.02	5,841.40	
2.	Tax Expenses	(594.87)	(544.97)	(453.54)	(2,133.53)	(1,471.07)	(594.87)	(544.97)	(453.54)	(2,133.53)	(1,471.07)	
	Profit After Tax	2,271.72	2,274.72	1,688.49	8,290.84	5,557.70	1,868.24	1,803.49	1,329.47	6,791.49	4,370.33	
в.	Monetization of NLTPL (Exceptional Item)											
1.	Sale of Investment	8,180.00	-	-	8,180.00	-	8,180.00	-	-	8,180.00	-	
2.	Cost of Investment determined on the basis of equity method of Accounting	(3,887.94)	-	-	(3,887.94)	-	(480.00)	-	-	(480.00)	-	
3.	Other Related Expenses	(46.52)	-	-	(46.52)	-	(46.52)	-	-	(46.52)	-	
4.	Profit on Sales of Investments	4,245.54	-	-	4,245.54	-	7,653.48	-	-	7,653.48	-	
5.	Capital Gain Tax	(1,538.75)	-	-	(1,538.75)	-	(1,538.75)	-	-	(1,538.75)	-	
	Profit After Tax (Exceptional Item)	2,706.79	-	-	2,706.79	-	6,114.73	-	-	6,114.73	-	
							For	Talbros Au	utomotive	Componer	ts Limited Sd/-	
	ate : May 22, 2024 Joint Managing Director ace : Gurugram DIN : 00628063											









बाजार

उच्च स्तर पर एमकैप-जीडीपी अनुपात सेंसेक्स में विप्रो की जगह ले 15 साल के उच्च स्तर सकती है अदाणी एंटरप्राइजेज

कृष्ण कांत मुंबई, 22 मई

चीबद्ध कंपनियों के शेयर भाव भारत के स्विद्ध कपानया करावर नाज गार्स्स जीडीपी में वृद्धि के मुकाबले मजबूत स्विने हुए हैं। बीएसई पर सभी सूचीबद्ध और कारोबार करने वाली कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) मार्च 2023 से 61 प्रतिशत तक बढ़ा है, जबकि 2023-24 में मौजूदा मूल्य पर भारत के जीडीपी में अनुमानित 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप भारत का मार्केट कैप -जीडीपी अनुपात 140.2 प्रतिशत पर पहुंच गया जो 15 वर्ष में सबसे अधिक है। यह अनुपात मार्च 2023 में 95.8 प्रतिशत था।

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार कारोबार के लिए उपलब्ध 4,357 कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण मंगलवार को करीब 416 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जबकि वर्तमान मूल्य पर भारत का जीडीपी 296.6 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024) है। मौजूदा अनुपात दिसंबर 2007 के अंत में 149.4 के सर्वाधिक अनुपात से केवल थोड़ा ही कम है। दिसंबर 2007 में बीएसई पर सूचीबद्ध और कारोबार करने वाली सभी कॅपनियों का संयुक्त बाजार पुंजीकरण 71.7 लाख करोड़ रुपये पर था जबकि भारत का जीडीपी 48 लाख करोड़ रुपये था।

दिलचस्प यह है कि अगले 15 महीनों में यानी मार्च 2009 के अंत में शेयरों में भारी गिरावट के कारण यह अनुपात करीब दो-तिहाई घटकर 54.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया था। वर्तमान में भारतीय इक्विटी



के संपूर्ण बाजार पूंजीकरण में बड़ी तेजी काफी हद तक मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों में आई मजबूती की वजह से दर्ज की गई है। बीएसई के सेंसेक्स सूचकांक में शमिल भारत की शीर्ष-30 सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार पुंजीकरण इस अवधि में सिर्फ 27.2 प्रतिशत तक बढ़ा। सेंसेक्स कंपनियों का संयुक्त बाजार पुंजीकरण मार्च 2023 के अंत में 115.9 लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर मंगलवार तक 147.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

इसी तरह, एनएसई के निफ्टी-50 सूचकांक का संयुक्त बाजार पूंजीकरण मार्च 2023 के 136.5 लाख करोड रुपये से बढ़कर मंगलवार को 181.8 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इन दोनों सुचकांकों में होने वाले कारोबार का मूल्य कंपनियों के पूर्ण बाजार पूंजीकरण के बजाय संयुक्त फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण (कंपनियों में गैर-प्रवर्तकों की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य) में बदलाव को ट्रैक करता है। तुलना करें तो सेंसेक्स पिछले साल मार्च के अंत से 25.8 प्रतिशत तक चढ़ा है जबकि निफ्टी में इस दौरान 30.2 प्रतिशत तेजी आई है।

मार्केट कैप-जीडीपी अनुपात में तेजी को देखते हुए कुछ विश्लेषकों ने निवेशकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इ क्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक एवं शोध प्रमुख जी चोकालिंगम का कहना है, 'अगर इस अनुपात में वृद्धि लार्जकैप शेयरों (जिनका अभी भी भारत में कॉर्पोरेट मुनाफे में बड़ा योगदान है) से जुड़ी होती तो मैं चिंतित नहीं होता लेकिन यह तेजी मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर आधारित है। इनमें से कई शेयरों ने

सलाह दी है पिछली कुछ तिमाहियों में अपने मूल्यांकन में बड़ा इजाफा दर्ज किया है जबकि उनकी आय उनके बाजार पूंजीकरण के अनुरूप रफ्तार कायम रखने में विफल रही।'

पर अनुपात

से महज थोडा कम

तक बढा है

 सभी सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण मार्च 2023 से 61 प्रतिशत

मौजूदा अनुपात दिसंबर 2007 के

अंत में 149.4 के सर्वाधिक अनुपात

मार्केट कैप-जीडीपी अनुपात में

निवेशकों को सतर्कता बरतने की

तेजी को देखते हुए कुछ विश्लेषकों ने

बीएसई मिडकैप सूचकांक पिछले एक साल में करीब 64 प्रतिशत और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक इस अवधि में 60.6 प्र तिशत चढा है। मिडकैप और स्मॉलकैप में बड़ी तेजी की मुख्य वजह इक्विटी बाजार में बड़ी संख्या में नए रिटेल निवेशकों का प्रवेश भी है। चोकालिंगम के अनुसार पिछले पांच साल में करीब 10 करोड़ नए घरेलू रिटेल निवेशकों ने इक्विटी बाजार में प्रवेश किया और इनमें से ज्यादातर ने स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में पैसा लगाने पर जोर दिया है भले ही इन कंपनियों के शेयर भाव बहुत बढ़ गए हों।

का आदेश रद्द

समी मोडक मुंबई, 22 मई

> अदाणी एंटरप्राइजेज बेंचमार्क सेंसेक्स में विप्रो की जगह ले सकती है।इस संबंध में औपचारिक घोषणा शुक्रवार को हो सकती है क्योंकि तभी बीएसई सूचकांकों का अर्धवार्षिक पुनर्संतुलन होगा। यह पहला मौका है जब गौतम अदाणी समूह के स्वामित्व वाली किसी कंपनी को बेंचमार्क सेंसेक्स में शामिल किया जाएगा। इस कदम से सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंडों की तरफ से अदाणी एंटरप्राइजेज में करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इस बीच, विप्रो से करीब 500 करोड़ रुपये की निकासी हो सकती है। यह आईआईएफएल जानकारी ऑल्टरनेटिव रिसर्च के विश्लेषण से मिली। इस कैलेंडर वर्ष में अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 7.5 फीसदी चढ़ा है जबकि विप्रो के शेयर में 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।

अदाणी एंटरटेनमेंट के सेंसेक्स में शामिल होने से इंडेक्स का

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने बुधवार को बहुराष्ट्रीय

कंपनी लिंडे इंडिया के खिलाफ बाजार नियामक सेबी का

अंतरिम आदेश रद्द कर दिया। शेयरधारकों की शिकायत के बाद भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नैशनल

स्टॉक एक्सचेंज को लिंडे इंडिया और उसके

इस कदम से सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंडों की तरफ से अदाणी एंटरप्राइजेज में करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा

बीएसई सूचकांकों का अर्धवार्षिक पुनर्संतुलन शुक्रवार को होगा

मुल्यांकन बढ़ सकता है। अभी अदाणी समूह की मूल कंपनी 12 महीने आगे के 57 गुने पीई पर कारोबार कर रही है। इसकी तुलना में सॉफ्टवेयर निर्यातक विप्रो 19.7 गुने पर ट्रेड कर रहा है, जो सेंसेक्स के 19.9 गुने के मुताबिक है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अदाणी एंटरप्राइजेज का कीमत लक्ष्य 4,069 रुपये है, जो आखिरी बंद भाव 3,140 रुपये के मुकाबले 30 फीसदी की बढत बताता है।

अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स ऐंड एसईजेड पहले ही निफ्टी-50 का हिस्सा हैं। सेंसेक्स में शामिल होने से अदाणी एंटरप्राइजेज के निवेशक का आधार और बढेगा।

वर्ष में सेंसेक्स में शामिल होने के दो मौके मिले थे। हालांकि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद इसके शेयरों में हुई भारी बिकवाली से यह मौका जाता रहा। बाद में जुलाई 2023 में अदाणी एंटरप्राइजेज सेंसेक्स में शामिल हो सकती थी जब एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के विलय से एक शेयर के लिए रास्ता खुला था।

दिलचस्प रूप से अदाणी

एंटरप्राइजेज को पिछले कैलेंडर

हालांकि इस दौड़ में जेएसडब्ल्यू ने बाजी मार ली थी। आईआईएफएल रिसर्च के

मताबिक, बीएसई 100 इंडेक्स में पांच शेयरों को शामिल किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। अनुमान है कि जियो फाइनैंशियल सर्विसेज, अदाणी ग्रीन एनर्जी, आरईसी, अदाणी पावर और अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस अब पेज इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड्स, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस, जी एंटरटेनमेंट और जुबिलैंट फुडवर्क्स की जगह ले सकती हैं।

मल्यांकन का निर्देश दिया था। पंचाट ने कंपनी को 27 मई कों सेबी के समक्ष दस्तावेज की जांच के लिए पेश होने का निर्देश और इस जांच के एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। यह मामला लिंडे इंडिया द्वारा उसके संबंधित पक्षें प्रेक्सेयर इंडिया और लिंडे साउथ एशिया सर्विसेज के साथ संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन (आरपीटी) की जांच करने और 🛛 विभिन्न समझौतों और लेनदेन से जुड़ा है। बीएस

Ŧ	•••••			
		🤹 अन्द्रल बेंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India	क्षेत्रीय कार्यालयः 31, जेल चुंगी मेरठ शहर, फोन नं0 0121–433102	कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
	अ था जी के इन	त्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित क न्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया । ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल हो यिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत वित्तीय आस्तियों क सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप । सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन सेन्द्रल बैंक ऑफ इं	8(1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत । प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के सा ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों /गारन्टर/बंधकर्क्ता को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा ने पर ऋणी/ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ग प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे । से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के स्वान् डिया, सुगर मिल त्रिवेणी शाखा मुजफ्फरनगर को देय राशि एवं उस पर अर्जित व्याज के चा उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आ	करने के लिए मांग नोटिस जारी किया ने उक्त नियमों के नियम 8 व उक्त दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते व मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें। र्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया
	क0 सं0	शाखा/ऋणकर्ता/ गारन्टर के नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की दिनांक
7	1.	शाखाः सगर मिल, त्रिवेणी	बंधक आवासीय सम्पत्ति (भूमि एवं भवन), स्थित ग्राम- गंगधारी, करबा खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, माप क्षेत्रफल 51.94 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार। सीमाएँ:- उत्तरः 10 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः श्री राम का मकान, पूर्वः पप्पू का मकान, पश्चिमः वेद सिंह का मकान।	
1	2.	शाखाः सुगर मिल, त्रिवेणी ऋणी: श्री अन्दुल दयान पुत्र श्री जमील दयान, पताः बुढ़ाना रोड, मौहल्ला- इस्लमा नगर, वार्ड नं0 24, न्यू वार्ड नं0 18, खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)। गारन्टर: श्री जमील दयान पुत्र श्री नसरू, ग्राम- मंडावरा, बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर।	बंधक आवासीय मकान (भूमि एवं भवन) माप क्षेत्रफल 66.71 वर्ग मीटर, स्थित बुढ़ाना रोड, मौहल्ला- इस्लाम नगर, वार्ड नं0 24, न्यू वार्ड नं0 18, खतौली, जिला- मुजफरनगर (30प्र0), सम्पत्ति स्वामी श्री अब्दुल दयान पुत्र श्री जमील दयान। सीमाएँ:- उत्तर: कलसून का मकान, दक्षिण: शमशाद का मकान, पूर्व: 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: अनवर का प्लॉट।	31.01.2024 रख 14,47,330.00 कब्जे (प्रजेसन) दिनांक 31.01.2024 की तिथि + प्रभावी व्याज एवं 20.05.2024 अन्य खर्चे - रिकवरी
t	1	दिनांकः 22.05.2024	स्थानः सहारनपुर	प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः सहारनप्र



फोन नंः 0129-2251482, वेबसाइटः www.talbros.com, ई—मेलः seema_narang@talbros.com

र्ब्लूचिप के बल पर लांघी 5 ट्रिलियन डॉलर की चोटी

पुष्ठ-1 का शेष

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह यह है कि बड़ी कंपनियों का मूल्यांकन आम तौर पर आसानी से कम नहीं होता।

मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'पूरे बाजार के मुकाबले लार्ज कैप शेयर पिछले एक दशक में अपने सबसे सस्ते स्तर पर हैं। लार्ज कैप का मूल्यांकन घटने से बढ़िया मौका मिला है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश देसी और विदेशी निवेशक कर रहे हैं। चढ़ते हुए बाजार में भी लार्ज कैप का मूल्यांकन कम होना दुर्लभ और ताज्जुब की बात है। चुनावी नतीजे आने और दर कटौती का सिलसिला शुरू होने के साथ इन शेयरों में तेजी आ सकती है।'देश के कल बाजार पंजीकरण में पर शीर्ष 100 शेयरों की हिस्सेदारी आम तौर पर दो-तिहाई से अधिक रही है। लेकिन अब कुल बाजार

पुंजीकरण में इन कंपनियों की हिस्सेदारी 64 फीसदी से भी कम है। जब बाजार पुंजीकरण 1 लाख करोड़ डॉलर, 2 लाख करोड़ डॉलर और 3 लाख करोड़ डॉलर हुआ था तब शीर्ष 100 कंपनियों की हिस्सेदारी 70 फीसदी से अधिक थी।

बीएनपी पारिबा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कैपिटल मार्केट स्ट्रैटजी के प्रमुख गौरव दुआ ने कहा, '2023 में स्मॉल और मिडकैप में करीब 70 से 80 फीसदी बढ़त हुई थी और अब लार्ज कैप भी उसी राह पर चल रहे हैं। इसलिए 4 लाख करोड़ डॉलर से 5 लाख करोड डॉलर के सफर में शीर्ष 100 शेयरों का योगदान ज्यादा रहने पर ताज्जूब नहीं होना चाहिए। हालिया तेजी में जिनमें भारतीय स्टेट बैंक जैसे कई सरकारी बैंकों, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों का अहम हाथ रहा है। ये सभी कंपनियां शीर्ष 100 फर्मों की जमात में शामिल हैं।

(साथ में मयंक पटवर्द्धन)

वारबर्ग पिनकस ने

इन्वेस्टमेंट ने बुधवार को अपोलो टायर्स की पूरी 3.54 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी दिग्गज ने 477 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2.24 करोड़ शेयर बेचकर 1,073 करोड़ रुपये जुटाए। खरीदारों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड, मिरे ऐसेट्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। अपोलो टायर्स का शेयर 1.8 फीसदी की बढ़त के साथ 491 रुपये पर बंद हुआ। दिसंबर 2023 में वारबर्ग ने अपोलो टायर्स की 4.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1,281 करोड़ रुपये जुटाए थे। दिसंबर 2020 में पीई दिग्गज ने कंपनी के अनिवार्य परिवर्तनीय तरजीही शेयरों में 1,080 बीएस

ऑफिस स्पेस आईपीओ को पूरे आवेदन कार्यस्थल व्यवसाय से जुड़ी कंपनी ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बुधवार 🗄 दिनांक 22.05.2024 को बोली के पहले दिन दो

talbr

गुना बोली मिली। कंपनी के 599 करोड़ रुपये के आईपीओ में 86,29,670 शेयर के मुकाबले 1,74,46,143 शोयर के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों की श्रेणी को 6.02 गुना आवेदन मिला। भाषा

सुपीरियर फिनलीज शेयर हेरफेर मामले में कार्रवाई

सेबी ने सुपीरियर फिनलीज शेयर के बारे में के लिए भ्रामक जानकारी देने वाले दो ऑपरेटरों टेलीग्राम चैनलों के जरिये गलत निवेश सुझाव पर 2-2 करोड़ रुपये तथा 16 अन्य पर 2.9 करोड़

बेची अपोलो टायर्स की पूरी हिस्सेदारी **वारबर्ग** पिनकस की सहायक व्हाइट आइरिस

करोड रुपये निवेश किए थे।

लिंडे इंडिया मामले में सेबी

देकर गुमराह करने के आरोप में 17 इकाइयों और 💿 रुपये का जुमीना लगाया है। सेबी के पूर्णकालिक लोगों को पांच साल के लिए तथा दो अन्य लोगों सदस्य अश्विनी भाटिया ने आदेश में लिखा है, को तीन-तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया 'इस आदेश से यह संदेश जाएगा कि संबंधित पक्षों है। नियामक ने कंपनी के निदेशक रजनीश कुमार 🛛 द्वारा इस तरह की हेरफेर वाली गतिविधियां किए पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना, शेयर भाव बढ़ाने जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बीएस

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए एकुल एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 24 वित्तीय हाइलाईट्स (समेकित) FINAL EBITDA PAT* DIVIDEND FROM 25% 81.51% 97.88% 20.25%

कारोबारियों की नजर चुनावी सट्टे के संकेतों पर

रॉयटर्स मुंबई, 22 मई

भारत के शेयर बाजारों में कारोबारी आम चुनाव के नतीजों के लिए नागरिकों और बाजार की अनिश्चितता से निपटने के लिए अवैध चुनावी सट्टा प्लेटफार्मों का सहारा ले रहे हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना से कुछ सप्ताह पहले शेयर बाजार देश भर में फल-फूल रहे शेडो-बेटिंग प्लेटफार्मों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सटोरिये अब अनुमान जता रहे हैं कि सत्तारूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उम्मीद से कम बहुमत मिलेगा।

मतदान से ठीक पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स में उतार-चढ़ाव आया है, क्योंकि कम मतदान प्रतिशत और मतदाता की उदासीनता की खबरों से सत्तारूढ़ दल की जीत के अंतर को लेकर समर्थक आशंकित हैं। शेडो बेटिंग बाजार अब भविष्यवाणी कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी संसद की 543 सीटों में से 300 से कम जीतेगी न कि वह 400 का आंकड़ा पार करेगी।

चुनाव से पूर्व पिछले प्रमुख जनमत सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया था कि भाजपा और उसके सहयोगी संसद में तीन-चौथाई सीटें जीत सकते हैं। शेयर बाजार में कारोबारी इसी के हिसाब से खिम उठाना चाहेंगे और अपनी उम्मीदों अपने पोर्टफोलियो में बदलाव ला रहे हैं। 20 साल से इक्विटी बाजार में रिटेल के आंकडों पर नजर डालना चाहेंगे।'



निवेशक जैमिन पटेल का कहना है कि उन्होंने यह जानने के लिए शेडो बेटिंग बाजार का इस्तेमाल किया है कि दूसरे क्या 'ट्रैक' कर रहे हैं। चुनावी अनि अगर भाजपा 334 से कम सीटें या श्चितता ने पटेल को पिछले दो सप्ताहों से स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में अपना निवेश घटाने के लिए बाध्य किया है। विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय शेयरों से 3 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाली और वे अपने पोर्टफोलियो सुरक्षित बनाने पर जोर दे रहे हैं। यह बिकवाली 4 महीने में आए विदेशी

निवेश की करीब आधी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, 'चाहे आप विदेशी निवेशक हों या खुदरा, आप सट्टेबाजी के आंकड़ों को जरूर देखेंगे। वे सावधानी बरतते हुए जो को सही साबित करने के लिए सट्टेबाजी

नवीनतम चुनावी दांव की जानकारी के लिए पटेल ने सट्टेबाजों के नेटवर्क की ओर रुख किया है। मुंबई में एक छोटे से ऑफिस से काम करने वाले 48 वर्षीय सटोरिये ने कहा कि उनके पास भाजपा की सीटों की संख्या पर 20 करोड़ रुपये तक का सट्टा लग चुका है। सट्टा बाजार के आकार का अनुमान उपलब्ध नहीं है, लेकिन देश भर में काम करने वाले कई सटोरिये इसी तरह के रुझान देख रहे हैं। बुकी ने कहा कि तीन हफ्ते पहले सट्टा बाजार में दो-तरफा 'एट-पार' बोली थी कि भाजपा 334 से 338 सीटें जीतेगी। इसका मतलब था कि

338 से अधिक सीटें जीतती है तो सटोरियों को भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की बड़ी जीत के खिलाफ बढ्ती संभावनाओं का संकेत यहहै कि अब दोतरफा दांव के अनुमान घटकर 294 से 298 सीटें रह गए हैं। एग्जिट पोल 1 जून को अंतिम चरण

का मतदान समाप्त होने के बाद आएंगे। राजस्थान का पश्चिम शहर फलोदी सट्टे का प्रमुख केंद्र है।

एक बुकी ने बताया कि जहां भाजपा द्वारा जीत सकने वाली सीटों की संख्या पर ज्यादा दांव लगे हुए है, वहीं फलोदी में किस पार्टी को कितनी सीटें और किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी सट्टा लग रहा है।

* असाधारण वस्तु सहित										(₹ लाख में)	
	एकल										
विवरण	ī	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
				31-मार्च-24							
	अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	
प्रचालनों से कुल आय	20,745.23	20,147.61	17,686.94	79,086.35	65,338.27	20,745.23	20147.61	17,686.94	79,204.15	65,338.27	
अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	2,866.59	2,819.69	2,142.03	10,424.37	7,028.77	2,463.11	2,348.46	1,783.01	8,925.02	5,841.40	
अपवादात्मक मदें	4,245.54	-	-	4,245.54	-	7,653.48	-	-	7,653.48	-	
कर पूर्व लाभ∕(हानि)	7,112.13	2,819.69	2,142.03	14,669.91	7,028.77	10,116.59	2,348.46	1,783.01	16,578.50	5,841.40	
कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि)	4,978.51	2,274.72	1,688.49	10,997.63	5,557.70	7,982.97	1,803.49	1,329.47	12,906.22	4,370.33	
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात् लाभ / (हानि) और कर पश्चात अन्य व्यापक आय शामिल)	4,984.98	3,852.47	2,718.05	17,336.56	6,872.32	7,989.99	3,382.34	2,363.70	19,249.02	5,689.38	
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹2/- प्रत्येक)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	
प्रति शेयर आय (र 2/- प्रत्येक) (अवधि के लिए – गैर वार्षिकीकृत)											
मूल (रें) तनुकृत (रें)	8.07 8.07	3.69 3.69	2.74 2.74		9.00 9.00	12.93 12.93	2.92 2.92	2.15 2.15	20.91 20.91	7.08 7.08	

टिप्पणियाँः

उपरोक्त, सेबी (सूचीयन बाच्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्य प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वैबसाइटॉ (<u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u>) और कम्पनी की वैबसाइट <u>www.talbros.com</u> पर भी उपलब्ध हैं ।

? 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए इन स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई और ऑडिट समिति द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई और तदनुसार 22 मई 2024 को आयोजित

कंपनी ने 27 अक्टबर, 2023 की रिकॉर्ड तिथि के अनुसार अपने मौजदा इक्विटी शेयरों के प्रत्येक शेयर को 10/- रुपये (केवल दस रुपये) से 2/- रुपये (केवल दो रुपये) कि 2/- अपये (केवल दो रुपये) सतंबर 2023 को आयोजित कंपनी की एजीएम में शैयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए, प्रति शेयर आय (ईपीएस) को आईएनडी एएस 33 के अनुसार प्रस्तुति उदेश्यों के लिए वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए समायोजित किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम "निप्पॉन लीकलेस टैल्ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड" (एनएलटीपीएल) में अपनी पूरी 40% हिस्सेदारी बेचने और बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें 10/- रुपये के 48,00,000 पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक के लिए 81.80 करोड़ रु. बिक्री आय 25 जनवरी 2024 को पूरी हुई। लेनदेन से शुद्ध लाम को परिणामों में असाधारण वस्तुओं के रूप में प्रकट किया गया है। निवेश की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर को परिणामों में कर व्यय के हिस्से के रूप में प्रकट किया गया है। निम्नलिखित तालिका असाधारण वस्तुओं और असाधारण वस्तुओं के अलावा अन्य पर कर पश्चात लाभ (पीएटी) का विभाजन प्रदान करती है। (₹ लाख में)

क.				समेकित					एकल		
स.	विवरण		समाप्त तिमाई	Ì	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31-मार्च-24	31-दिस-23	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-दिस-23	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23
		अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
	असाधारण वस्तुओं के अलावा										
1.	असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	2,866.59	2,819.69	2,142.03	10,424.37	7,028.77	2,463.11	2,348.46	1,783.01	8,925.02	5,841.40
2.	कर व्यय	(594.87)	(544.97)	(453.54)	(2,133.53)	(1,471.07)	(594.87)	(544.97)	(453.54)	(2,133.53)	(1,471.07)
	कर के बाद लाभ	2,271.72	2,274.72	1,688.49	8,290.84	5,557.70	1,868.24	1,803.49	1,329.47	6,791.49	4,370.33
ख.	एनएलटीपीएल का मुद्रीकरण (असाधारण वस्तु)										
	निवेश की बिक्री	8,180.00	-	-	8,180.00	-	8,180.00	-	-	8,180.00	-
2.	निवेश की लागत लेखांकन की इक्विटी पद्धति के आधार	(3,887.94)	-	-	(3,887.94)	-	(480.00)	-	-	(480.00)	-
	पर निर्धारित की जाती है										
	अन्य संबंधित व्यय	(46.52)	-	-	(46.52)	-	(46.52)	-	-	(46.52)	-
	निवेश की बिक्री पर लाभ	4,245.54	-	-	4,245.54	-	7,653.48	-	-	7,653.48	-
5.	पूंजी लाभ कर	(1,538.75)	-	-	(1,538.75)	-	(1,538.75)	-	-	(1,538.75)	-
	कर पश्चात् लाभ (असाधारण वस्तु)	2,706.79	-	-	2,706.79	-	6,114.73	-	-	6,114.73	-
								कृते टालब्रो	स ऑटोमोर्ग	टेव कम्पोनेंत	र्स लिमिटेड
											हस्ता / —
दिन	गंकः मई 22, 2024										ा नुज तलवार प्रबंध निदेशक
	ानः गुरुग्राम										: 00628063